



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 2—फरवरी 8, 2008 (माघ 13, 1929)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 2—FEBRUARY 8, 2008 (MAGHA 13, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2008

सेना शाखा

सं. 58, दिनांक 15 जनवरी 2008—राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 3 विशेष
70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(क) निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके
08 मार्च 2008 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 08 मार्च 2008 से स्थायी
कमीशन प्रदान किया जाता है:—

एस एस सं., आई सी सं. आर्बटि, नाम और आर्म/सर्विस

एस एस 39994, आई सी-65803ए रतन बहादुर, मैक इफै

एस एस 39995, आई सी-65804एच अभिषेक द्विवेदी, ए सी

एस एस 39998, आई सी-65805एल हितेश कौशिक, ए एस सी

एस एस 40000, आई सी-65806एन मनोज कुमार द्विवेदी, आर्टी

एस एस 40005, आई सी-65809एफ संदीप कुमार, ए ओ सी

एस एस 40006, आई सी-65810डब्ल्यू निशांत कारकी, ए एस सी

एस एस 40007, आई सी-65811वाई राकेश सिंह, इफै

एस एस 40012, आई सी-65815पी नीरज कपूर, इंजीनियर्स

एस एस 40015, आई सी-65818एच विजय कुमार, आर्टी.

एस एस 40017, आई सी-65819एल विशाल शर्मा, इफै

एस एस 40018, आई सी-65820ए अरुण गुलाटी, आर्टी

एस एस 40019, आई सी-65821एच भौसले अजय उल्हास, इफै

एस एस 40020, आई सी-65822एल जयदीप श्योराण इफै

एस एस 40021, आई सी-65823एन अमरिंदर सिंह बालिया, ए सी

एस एस 40024, आई सी-65825वाई एच लेलिथ बाबू, इफै

एस एस 40025, आई सी-65826एफ प्रदीप कुमार, इफै

एस एस 40027, आई सी-65827के रामित हसीजा, ए ए डी

एस एस 40032, आई सी-65829पी गोपालाकृष्णन के, इफै

एस एस 40033, आई सी-65830के मयूर रतुरी, ई एम ई

एस एस 40034, आई सी-65831एम गुरिंदर पौल सिंह गगनेजा, ई एम ई

एस एस 40035, आई सी-65832पी अम्बुज बल्लव साहू, इफै

एस एस 40039, आई सी-65835एच कसवा रत्नदीप विजय, सिग्नल्स

एस एस 40045, आई सी-65837एन संगसोंगबो विसुनामल, इफै

एस एस 40046, आई सी-65838डब्ल्यू राज कुमार शर्मा, इफै

एस एस 40047, आई सी-65839वाई विश्वनाथ तिवारी, इफै

एस एस 40050, आई सी-65841डब्ल्यू कुलविंदर सिंह, ए एस सी

// एस एस 40053, आई सी-65842वाई पंकज कुमार, आर्टी

एस एस 40055, आई सी-65844के विजय राव, ए एस सी

एस एस 40057, आई सी-65846पी दिलेर सिंह जाखड, आर्टी

एस एस 40059, आई सी-65847एक्स राजीव यादव, आर्टी

एस एस 40061, आई सी-65849एच धरमजोत सिंह, इफै

एस एस 40065, आई सी-65850एक्स मनपाल सिंह धनोआ, इफै

एस एस 40068, आई सी-65851ए अभिषेक राय, ए एस सी

एस एस 40070, आई सी-65853एल ओम प्रकाश, इफै

एस एस 40075, आई सी-65854एन अमरदीप सिंह, ए एस सी

एस एस 40077, आई सी-65855डब्ल्यू सचिन कौशल, इंजीनियर्स

एस एस 40078, आई सी-65856वाई कमलजीत सिंह लवाना, इंजीनियर्स

एस एस 40079, आई सी-65857एफ सरताज मेहता, आर्टी

एस एस 40080, आई सी-65858के राहुल शर्मा, ए ओ सी

एस एस 40081, आई सी-65859एम पंकज जसवाल, इंजीनियर्स

एस एस 40084, आई सी-65861के गोपालकृष्णा जे, ई एम ई

एस एस 40088, आई सी-65862एम अमित शर्मा, इंजीनियर्स

एस एस 40089, आई सी-65863पी अमित चौहान, इफै

एस एस 40091, आई सी-65864एक्स सूरज एस, इफै

एस एस 40092, आई सी-65865ए अभिलाष कोचुकलीक्केल, आर्टी

एस एस 40093, आई सी-65866एच सुशील लखनपाल, ई एम ई

एस एस 40095, आई सी-65868एन अमरिंदर सिंह, इफै

एस एस 40097, आई सी-65869डब्ल्यू मंदीप शेरगिल, इफै

एस एस 40099, आई सी-65870एल जोगिंदर शेखावत, ए एस सी

एस एस 40100, आई सी-65871एन अर्नब मित्रा, इफै

एस एस 40102, आई सी-65873वाई जयदीप सिंह, ए सी

एस एस 40105, आई सी-65875के अभिलाष वर्धीस, इफै

एस एस 40106, आई सी-65876एम जितेंद्रा चतुर्वेदी, आर्टी

एस एस 40107, आई सी-65877पी विशाल थापा, सिग्नल्स

एस एस 40109, आई सी-65879पी शशीकिरण देशपांडे, इंजीनियर्स

एस एस 40114, आई सी-65881एक्स अंकुर सागर, ई एम ई

एस एस 40120, आई सी-65883एच दीपक चंद्रन एम, ई एम ई

एस एस 40128, आई सी-65886डब्ल्यू मयुर ध्वज नाथावत, ए सी

(ख) उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

(i) वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 08 मार्च 2003

(ii) पदोन्नति के लिये तारीख - 08 नवम्बर 2003

(ग) उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(क) निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 08 मार्च 2008 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 08 मार्च 2008 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

एस एस सं., आई सी सं. आर्बटित, नाम और आर्म/सर्विस

एस एस 39978, आई सी-65793एफ रतन लैन सिंह, सिग्नल्स

एस एस 39980, आई सी-65794के नीरज डडवाल, ई एम ई

एस एस 39982, आई सी-65795एम अजय कुमार शर्मा, इंजीनियर्स

एस एस 39985, आई सी-65796पी देबाशीष सिंहा, ई एम ई

एस एस 39987, आई सी-65797एक्स फजलुल बरी सशार, इंजीनियर्स

(ख) उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

(i) वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 08 मई 2001

(ii) पदोन्नति के लिये तारीख - 08 मई 2001

(ग) उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

एम एल एन श्रवण कुमार

कर्नल

कर्नल एम एस-7

सं. 59, दिनांक 11 जनवरी 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष कमीशन प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले. बनाया जाता है

करण सिंह त्यागी (टीए-42680) (इंजीनियर), 02 मार्च 2007 (एफ एन)

दिनेश गौर (टीए-42674) (इंजीनियर), 22 नवम्बर 2006 (एफ एन)

आनन्द किशोर तिवारी (टीए-42673) (इंजीनियर), 20 नवम्बर 2006 (एफ एन)

जयराज
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 60, दिनांक 10 जनवरी 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार मेजर नरेन्द्रा राय (जे सी-183172ए), पहले 11 जी आर--06 जनवरी 2007

सूबेदार मेजर जय प्रकाश (जे सी-200332एन), पहले आर्टिलरी--07 जनवरी 2007

सूबेदार मेजर रूप सिंह चंदेल (जे सी-578118डब्ल्यू), पहले जैक राईफल्स--08 जनवरी 2007

सूबेदार (जी डी) के रैंक में

सूबेदार बिशनु शंकर पांडे (जे सी-842080एल), पहले नौ सेना--08 जुलाई 2006

सूबेदार बलबीर सिंह (जे सी-528531डब्ल्यू), पहले गढ़वाल राईफल्स--11 जुलाई 2006

सूबेदार गजराज सिंह (जे सी-412437एन), पहले पैरा रेजीमेन्ट--07 अक्टूबर 2006

सूबेदार देस राज (जे सी-239250एफ), पहले आर्मड कोर--08 अक्टूबर 2006

सूबेदार शमशेर सिंह (जे सी-518582डब्ल्यू), पहले डोगरा रेजीमेन्ट--06 जनवरी 2007

सूबेदार तरलोक सिंह (जे सी-203954ए), पहले पंजाब रेजीमेन्ट--06 जनवरी 2007

सूबेदार दिलबाग सिंह (जे सी-428750एच), पहले पंजाब रेजीमेन्ट--06 जनवरी 2007

सूबेदार रोशन लाल भरमौरिया (जे सी-402227ए), पहले ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स--06 जनवरी 2007

सूबेदार अजीत चन्द (जे सी-449019डब्ल्यू), पहले ग्रनेडियर्स--06 जनवरी 2007

सूबेदार रामा पति (जे सी-194491एम), पहले ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स--06 जनवरी 2007

सूबेदार मेख बहादुर थापा (जे सी-402345एन), पहले ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स--08 जनवरी 2007

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार जनक राज (जे सी-219778एक्स), पहले महार रेजीमेन्ट--07 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार सत्या प्रसाद (जे सी-412435एच), पहले पैरा रेजीमेन्ट--07 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार बच्चन सिंह (जे सी-418355एफ), पहले मैक इन्फेन्ट्री रेजीमेन्ट--08 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार जय सिंह खंगरोट (जे सी-239080एच), पहले आर्मड कोर--06 जनवरी 2007

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द्रा (जे सी-528983वाई), पहले गढ़वाल राईफल्स--06 जनवरी 2007

नायब सूबेदार धनश्याम कटोच (जे सी-518877एम), पहले डोगरा रेजीमेन्ट--06 जनवरी 2007

नायब सूबेदार बोध राज (जे सी-519223एम), पहले डोगरा रेजीमेन्ट--06 जनवरी 2007

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

(थल सेना शाखा)

सं. 61, दिनांक 11 जनवरी 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

(स्थायी थल सेना)

(सेना चिकित्सा कोर)

स्थायी सूबेदार मेजर (लैबोरेटरी तकनीशियन)

सूबेदार शिव कुमार (जेसी-692243ए), 01 जनवरी 2007

सूबेदार शभा सोना डे (जेसी-692517ए), 01 जुलाई 2007

स्थायी सूबेदार मेजर (रेडियोग्राफर)

सूबेदार कृष्णा कांत दत्ता (जेसी-208716एक्स), 17 जनवरी 2007

स्थायी सूबेदार (लैबोरेटरी तकनीशियन)

नायब सूबेदार बिहारी लाल (जेसी-694776एफ), 11 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार शीतल प्रसाद (जेसी-694874एफ), 01 दिसम्बर 2006
 नायब सूबेदार शम्भूनाथ पांडेय (जेसी-694875के), 01 दिसम्बर 2006
 नायब सूबेदार काम्बले सुरेश दन्यानू (जेसी-694959एक्स), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-694960एम), 01 फरवरी 2007
 नायब सूबेदार अश्वनी कुमार शाह (जेसी-695061एक्स), 01 जून 2007

नायब सूबेदार जे रवी चन्द्रन (जेसी-695090एम), 01 सितम्बर 2007
 नायब सूबेदार आचार्या प्रवीन कुमार जादूराम (जेसी-695132एन), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार अशफाक अहमद (जेसी-695180एन), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार कैलाश राम (जेसी-695168एम), 01 सितम्बर 2007

स्थायी सूबेदार (लैबोरेटरी असिस्टेंट)

नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र लोहानी (जेसी-694974एम), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार सरवन कुमार (जेसी-694991एम), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार गोपाल प्रसाद गुप्ता (जेसी-694992पी), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार आर नल्ला रेतना मोनी (जेसी-695015एच), 01 जून 2007

नायब सूबेदार मधू सूदना कुरूप जे (जेसी-695040एफ), 01 जून 2007

नायब सूबेदार निरंजन कुमार सिंह (जेसी-695060पी), 01 जून 2007

नायब सूबेदार दीप कुमार (जेसी-695067वाई), 01 जून 2007

नायब सूबेदार दिनेश कुमार शर्मा (जेसी-695085एफ), 01 जून 2007

नायब सूबेदार राधा किशन पिल्लई के एस (जेसी-695127एच), 01 जून 2007

नायब सूबेदार अदिवेप्पा बासा पुरी (जेसी-695086के), 01 जून 2007

नायब सूबेदार सोम नाथ कुण्डु (जेसी-695087एम), 01 जून 2007

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह रावत (जेसी-695089एक्स), 01 जून 2007

नायब सूबेदार ओ गुना सेकरन (जेसी-695323एच), 01 सितम्बर 2007

स्थायी सूबेदार (डेंटल तकनीशियन)

नायब सूबेदार चकला रेददीपा (जेसी-693013वाई), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार कृष्णा कुमार के एन (जेसी-693249एन), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार ब्रजेश कुमार सिंह चौहान (जेसी-693338एम), 01 जुलाई 2007

स्थायी सूबेदार (डेंटल ओपरेशन रूम असिस्टेंट)

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र धर्मा (जेसी-694148एच), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार शीतोल शशीकान्त दत्तात्रेय (जेसी-694208डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2007

स्थायी सूबेदार (रेडियोग्राफर)

नायब सूबेदार वरगीस सी एम (जेसी-692968ए), 24 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार काम्बले प्रहलाद गोविन्द (जेसी-693034पी), 17 जनवरी 2007

नायब सूबेदार राम बिलाश मण्डल (जेसी-693028एफ), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार अब्दुल जब्बार (जेसी-693010एल), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार मनोहरन वी आर (जेसी-693154एन), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार सतपाल (जेसी-693232ए), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार शिव लखन सिंह (जेसी-693298डब्ल्यू), 01 मई 2007

नायब सूबेदार पिताम्बर साहू (जेसी-693252एन), 01 जून 2007

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-693299वाई), 01 जून 2007

नायब सूबेदार सुधाकरन के पी (जेसी-693546एफ), 01 जून 2007

नायब सूबेदार श्यामल राव (जेसी-693547के), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार तारा सिंह (जेसी-693548एम), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार ओम प्रकाश मेहता (जेसी-693564के), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार पुरन चन्द्र जोसी (जेसी-693651एक्स), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह नेगी (जेसी-693841के), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार मेथ्यू एम एम (जेसी-693950एम), 01 सितम्बर 2007

स्थायी सूबेदार मेजर (फार्मसिस्ट)

सूबेदार बलबन्त सिंह (जेसी-691147वाई), 01 जनवरी 2007

स्थायी सूबेदार मेजर (डेंटल हाईजीनिस्ट)

सूबेदार धरमवीर सिंह राठी (जेसी-692230एच), 01 जुलाई 2007

स्थायी सूबेदार (हेल्थ असिस्टेंट)

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-691830एच), 30 जुलाई 2007

स्थायी सूबेदार (फिजियोथेरेपी असिस्टेंट)

नायब सूबेदार राधा कृष्णन के (जेसी-694139एल), 01 अप्रैल 2007

स्थायी सूबेदार (फार्मासिस्ट)

नायब सूबेदार सलक चन्द्र (जेसी-693005ए), 01 जनवरी 2007
 नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-693127के), 01 जनवरी 2007
 नायब सूबेदार यंगालू कुण्डु इ (जेसी-693128एम), 01 फरवरी 2007
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र प्रसाद (जेसी-693037एच), 01 फरवरी 2007
 नायब सूबेदार दल बहादुर पाल (जेसी-692333एच), 01 फरवरी 2007
 नायब सूबेदार बालाचन्द्रन के (जेसी-693265एल), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार राममूर्ति (जेसी-693265एल), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार ब्रह्म पाल सिंह (जेसी-693365डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार अखिलेश कुमार त्रिपाठी (जेसी-693383वाई), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार मुरुगन ए (जेसी-693408ए), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र पौल (जेसी-694679के), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार नारायण पटेल (जेसी-693494डब्ल्यू), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार समसेर अली खान (जेसी-693495वाई), 01 जुलाई 2007
 नायब सूबेदार सत्या नायक (जेसी-693496एफ), 01 जुलाई 2007
 नायब सूबेदार टोमी सेबास्तैन (जेसी-693497के), 01 जुलाई 2007
 नायब सूबेदार रमेश चन्द्र मीना (जेसी-693498एम), 01 अगस्त 2007
 नायब सूबेदार जितेन्द्र नाथ तिवारी (जेसी-693574एन), 01 सितम्बर 2007

स्थायी सूबेदार (ओपरेशन रूम असिस्टेंट)

नायब सूबेदार गुप्ता रामआश्रय लालजी (जेसी-694412पी), 01 फरवरी 2007
 नायब सूबेदार जय प्रकाश सिंह (जेसी-694694वाई), 01 मार्च 2007
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार अवस्थी (जेसी-694422वाई), 01 मार्च 2007
 नायब सूबेदार धीर सिंह (जेसी-694656एच), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार राधाकृष्णना पिल्लई पी (जेसी-694540एम), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार अरविन्द पाल सिंह (जेसी-694657एल), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार सुग्रीव सिंह जरयाल (जेसी-694658एन), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-694659डब्ल्यू), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार मधूसूदन वी (जेसी-694660एल), 01 जुलाई 2007
 2-434 GI/2007

नायब सूबेदार धुमी राम यादवा (जेसी-694722ए), 01 जुलाई 2007
 नायब सूबेदार आशुतोष राय (जेसी-694723एच), 01 जुलाई 2007
 नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-694719ए), 01 अगस्त 2007
 नायब सूबेदार बालचन्द्रन नायर पी (जेसी-694724एल), 10 अगस्त 2007

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-694804एच), 01 अगस्त 2007
 नायब सूबेदार धरमवीर (जेसी-694834ए), 01 सितम्बर 2007

स्थायी सूबेदार (साइक्रेटिक नर्सिंग असिस्टेंट)

नायब सूबेदार गोरले दास अरधी (जेसी-694715के), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार रबी नारायण आचार्या (जेसी-694773एन), 01 अगस्त 2007

स्थायी सूबेदार (डेंटल हाइजिनिस्ट)

नायब सूबेदार जय भगवान (जेसी-694184एक्स), 01 जुलाई 2007

स्थायी सूबेदार (ब्लड ट्रांसफ्यूजन असिस्टेंट)

नायब सूबेदार एन मनिक्कम (जेसी-695034एन), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह तोमर (जेसी-695041के), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-695039एम), 01 जुलाई 2007
 नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-695242एच), 01 अगस्त 2007
 नायब सूबेदार कप्तान सिंह (जेसी-695136के), 01 अगस्त 2007

आर. सी. रातूडी
 उप सचिव

सं. 62, दिनांक 11 जनवरी 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

सबस्टैंटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार राम प्रकाश (जेसी-264396ए), 11 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

नायब सूबेदार वेणुगोपालन के वी (जेसी-265074एम), 01 सितम्बर 2006/01 जून 2006*

नायब सूबेदार थंकाचन जोसेफ (जेसी-265868एक्स), 24 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006*

नायब सूबेदार हिमल सिंह (जेसी-267233एक्स), 14 मई 2007/28 जून 2006*

नायब सूबेदार सोजी राम मीणा (जेसी-265660पी), 01 जनवरी 2007/01 नवम्बर 2006*

नायब सूबेदार हरजीत सिंह (जेसी-265793एल), 09 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007*

नायब सूबेदार विनसेंट एम (जेसी-265888एल), 21 जून 2007/01 मार्च 2007*

नायब सूबेदार शिव कुमार चतुर्वेदी (जेसी-268634वाई), 29 अक्टूबर 2007/01 अगस्त 2007*

नायब सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-268755ए), 01 अक्टूबर 2007/01 अगस्त 2007*

नायब सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-268597डब्ल्यू), 09 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007*

नायब सूबेदार जंगली राम (जेसी-268729वाई), 15 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007*

नायब सूबेदार कमल सिंह (जेसी-268917ए), 12 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007*

नायब सूबेदार मधु सुदन यादव (जेसी-268015एल), 10 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007*

नायब सूबेदार राम खेलावन साहू (जेसी-267446एल), 09 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007*

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-267161वाई), 03 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007*

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-267508ए), 03 सितम्बर 2007/01 सितम्बर 2007*

नायब सूबेदार रमेश बाबू यादव (जेसी-268608एक्स), 11 सितम्बर 2007/01 सितम्बर 2007*

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार रवी चन्द्रन आर (14491233डब्ल्यू अब जेसी-270704एल), 02 जुलाई 2007/01 नवम्बर 2006*

हवलदार राम कर्ण गुजर (14478842एफ अब जेसी-270705एन), 01 जनवरी 2007/01 नवम्बर 2006*

हवलदार सुशील कुमार श्रीवास्तव (15106325एल अब जेसी-270706डब्ल्यू), 24 अप्रैल 2007/01 दिसम्बर 2006*

हवलदार राजेन्द्रा सिंह बिस्त (14373369एच अब जेसी-270707वाई), 27 जून 2007/01 फरवरी 2007*

हवलदार राजेश कुमार एम सी (14398431पी अब जेसी-270708एफ) 29 अप्रैल 2007/01 मार्च 2007*

हवलदार बिमल कुमार पाठक (14482761वाई अब जेसी-270709के) 27 जून 2007/14 मार्च 2007*

आरएचएम राजेन्द्र कुमार तिवारी (14499264एल अब जेसी-270710वाई) 25 जून 2007/01 मई 2007*

हवलदार परमजीत सिंह (14371435एफ अब जेसी-270711एफ) 27 जून 2007/01 फरवरी 2007*

हवलदार सुशील कुमार झा (14480603एल अब जेसी-270712के) 07 जून 2007/01 मई 2007*

हवलदार राम पाल सिंह (14397413ए अब जेसी-270713एम) 01 जुलाई 2007/07 मई 2007*

हवलदार देवी प्रसाद गुप्ता (15105408के अब जेसी-270714पी) 06 अगस्त 2007/07 मई 2007*

हवलदार कैलास यादवा (14487842एच अब जेसी-270715एक्स) 02 जुलाई 2007/27 मई 2007*

हवलदार खीम सिंह (14489057एल अब जेसी-270716ए) 01 जून 2007

हवलदार सुरेन्द्र सिंह नेगी (14486925एफ अब जेसी-270717एच) 09 जुलाई 2007/03 जून 2007*

हवलदार कुशल सिंह (14384002एच अब जेसी-270718एल) 31 जुलाई 2007/03 जून 2007*

हवलदार राजेश कुमार यादवा (15118843एक्स अब जेसी-270719एन) 06 अगस्त 2007/11 जुलाई 2007*

हवलदार वी भारती (14481682वाई अब जेसी-270734एच) 02 मार्च 2007/25 नवम्बर 2006*

हवलदार भूपाल सिंह (14484685डब्ल्यू अब जेसी-270735एल) 03 मई 2007/01 मार्च 2007*

आरएचएम सत्येन्द्र प्रसाद सिंह (14370781एल अब जेसी-270736एन) 21 मई 2007/07 अप्रैल 2007*

हवलदार हर स्वरूप सिंह (14495096ए अब जेसी-270737डब्ल्यू) 02 जुलाई 2007/01 मई 2007*

हवलदार कैलाश नामदेव राव सरनार्क (14484605एन अब जेसी-270738वाई) 24 जुलाई 2007/01 मई 2007*

हवलदार आनन्दन एम (14497085एम अब जेसी-270739एफ) 24 जुलाई 2007/01 मई 2007*

आरएचएम खेमा राम घास्सावान (14375461ए अब जेसी-270740डब्ल्यू) 23 जुलाई 2007/01 जून 2007*

हवलदार विजय कुमार एम के (14487126एक्स अब जेसी-270741वाई) 01 जून 2007

हवलदार कुलवन्त सिंह (3383666डब्ल्यू अब जेसी-270742एफ) 28 जुलाई 2007/21 जून 2007*

हवलदार कुलवन्त सिंह (14494478के अब जेसी-270743के) 02 जुलाई 2007/01 जुलाई 2007*

हवलदार सुब्रता कुमार बिश्वास (14372819एच अब जेसी-270744एम) 01 अगस्त 2007

आरएचएम राम नाथ यादव (14376022एफ अब जेसी-270745पी) 10 अगस्त 2007/01 अगस्त 2007*

हवलदार गोपाल दास (14495899एम अब जेसी-270746एक्स) 14
अगस्त 2007/01 अगस्त 2007*

हवलदार राम मनोहर साहू (15103219एफ अब जेसी-270747ए)
01 अगस्त 2007

बीएचएम ग्यान चन्द (14477900एन अब जेसी-270748एच) 13
अगस्त 2007/01 अगस्त 2007*

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

पी. रामा शास्त्री
अवर सचिव

सं. 63, दिनांक 15 जनवरी 2008--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित
ए एम सी अधिकारियों को उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर के पद पर

गुरतेज सिंह (एम आर-08473एन) (एम एस-14493एक्स), ए एम
सी--19 दिसम्बर 2006

अर्जुन एम एन (एम आर-08300डब्ल्यू) (एम एस-14621के), ए
एम सी--07 अप्रैल 2007

अविनाश सुशना (एम आर-08386ए) (एम एस-14652के), ए एम
सी--28 मई 2007

त्रिलोक सिंह रावत (एम आर-08240एम) (एम एस-14369डब्ल्यू),
ए एम सी--08 मार्च 2006

अतुल शर्मा (एम आर-08402एम) (एम एस-14592ए), ए एम
सी--22 मार्च 2007

मयुरी जैन (एम आर-08485एच) (एम एस-14822एच), ए एम
सी--17 अगस्त 2007

हरि भास्कर एस (एम आर-08401के), ए एम सी--19 दिसम्बर 2006

सर्जन लेफ्ट कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

के जजिल (एम आर-06506पी) (75544आर), ए एम सी--16
दिसम्बर 2004

अमिय चन्द्र रथ (एम आर-07460के) (75594बी), ए एम सी--03
दिसम्बर 2005

दिव्या बौनम (एम आर-07657ए) (75160आर), ए एम सी--05
मार्च 2006

एस एस जी नारायण (एम आर-06418वाई) (75533), ए एम
सी--16 दिसम्बर 2004

सी वी एस नगेन्द्रराव (एम आर-07057एक्स) (75547), ए एम
सी--16 दिसम्बर 2004

पी के श्रीवास्तव (एम आर-07792एन) (75606), ए एम सी--04
जनवरी 2005

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमाण्डर के पद पर

(श्रीमती) परवीन कौर (एम आर-07389एफ) (एफ-23448के),
ए एम सी--05 सितम्बर 2006

एस मित्रा (एम आर-06818एल) (एफ-23438एन), ए एम सी--03
जुलाई 2007

(श्रीमती) भारती गब्ती महापात्र (एम आर-07375एफ)
(एफ-23479), ए एम सी--27 सितम्बर 2007

अहमद हुसैन जैदी (एम आर-07602डब्ल्यू) (ए एफ-23483एन),
ए एम सी--01 अक्टूबर 2007

जी रविन्द्रनाथ

ब्रिगेडियर

उप डीजीएफएमएस (पर्स)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 64, दिनांक 14 जनवरी 2008--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित
अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड
पर दिनांक 01 सितम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं:--

नाम, प्रयोगशाला/स्थापना, वर्तमान ग्रेड, पदोन्नति एवं पदोन्नति ग्रेड का
वेतनमान

श्री/श्रीमती

टी एस पुरी, ए डी आर डी ई, तकनीकी अधिकारी 'बी', तकनीकी
अधिकारी 'सी', रु. 10,000-325-15,200/-

प्रमोद कुमार, ए डी आर डी ई, तकनीकी अधिकारी 'बी', तकनीकी
अधिकारी 'सी', रु. 10,000-325-15,200/-

जे पी बीरमणी, ए डी आर डी ई, तकनीकी अधिकारी 'ए', तकनीकी
अधिकारी 'बी', रु. 8,000-275-13,500/-

एस सी संगर, ए डी आर डी ई, तकनीकी अधिकारी 'ए', तकनीकी
अधिकारी 'बी', रु. 8,000-275-13,500/-

बृधी चौद, डी ए आर एल, तकनीकी अधिकारी 'बी', तकनीकी
अधिकारी 'सी', रु. 10,000-325-15,200/-

वी के जोशी, डी ए आर एल, तकनीकी अधिकारी 'बी', तकनीकी
अधिकारी 'सी', रु. 10,000-325-15,200/-

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये
गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 01 सितम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से
पदोन्नति करते हैं:--

नाम, प्रयोगशाला/स्थापना, वर्तमान ग्रेड, पदोन्नति एवं पदोन्नति ग्रेड का
वेतनमान

श्री/श्रीमती

बी एम फजलुनिस्सा, एम टी आर डी सी, तकनीकी अधिकारी 'बी',
तकनीकी अधिकारी 'सी', रु. 10,000-325-15,200/-

एम आर कुमारस्वामी, डी एफ आर एल, तकनीकी अधिकारी 'बी',
तकनीकी अधिकारी 'सी', रु. 10,000-325-15,200/-

एस नाताराजु, डी एफ आर एल, तकनीकी अधिकारी 'ए', तकनीकी अधिकारी 'बी', रु. 8,000-275-13,500/-

सतीश कुमार गुप्ता, डेसिडोक, तकनीकी अधिकारी 'बी', तकनीकी अधिकारी 'सी', रु. 10,000-325-15,200/-

वी एल कक्कर, डेसिडोक, तकनीकी अधिकारी 'बी', तकनीकी अधिकारी 'सी', रु. 10,000-325-15,200/-

चरण सिंह, डेसिडोक, तकनीकी अधिकारी 'ए', तकनीकी अधिकारी 'बी', रु. 8,000-275-13,500/-

बी निर्मला, डेबेल, तकनीकी अधिकारी 'बी', तकनीकी अधिकारी 'सी', रु. 10,000-325-15,200/-

बी. बी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-३)

MINISTRY OF DEFENCE

ARMY BRANCH

New Delhi, the 2nd February 2008

No. 58, dated 15th January 2008.—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(a) The undermentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 08 March 2008, on relinquishing their Short Service Commission wef 08 March 2008 :—

SS No., IC No. allotted, Name and Arms./Services

SS-39994, IC-65803A, Ratan Bahadur—Mech

SS-39995, IC-65804H, Abhishek Dwivedi—AC

SS-39998, IC-65805L, Hitesh Kaushik—ASC

SS-40000, IC-65806N, Manoj Kumar Dwivedi—Arty

SS-40005, IC-65809F, Sandeep Kumar—AOC

SS-40006, IC-65810W, Nishant Karki—ASC

SS-40007, IC-65811Y, Rakesh Singh—Inf

SS-40012, IC-65815P, Neeraj Kapoor—Engrs

SS-40015, IC-65818H, Vijay Kumar—Arty

SS-40017, IC-65819L, Vishal Sharma—Inf

SS-40018, IC-65820A, Arun Gulati—Arty

SS-40019, IC-65821H, Bhonsle Ajay Ulhas—Inf

SS-40020, IC-65822L, Jaideep Sheoran—Inf

SS-40021, IC-65823N, Amrinder Singh Walia—AC

SS-40024, IC-65825Y, H Lelith Babu—Inf

SS-40025, IC-65826F, Pradeep Kumar—Inf

SS-40027, IC-65827K, Ramit Hasija—AAD

SS-40032, IC-65829P, Gopalakrishnan K—Inf

SS-40033, IC-65830K, Mayur Raturi—EME

SS-40034, IC-65831M, Gurinder Paul Singh Gagneza—EME

SS-40035, IC-65832P, Ambuj Ballava Sahu—Inf

SS-40039, IC-65835H, Kaswa Ratnadeep Vijay—Sigs

SS-40045, IC-65837N, Sangsongbou Wisunamal—Inf

SS-40046, IC-65838W, Raj Kumar Sharma—Inf

SS-40047, IC-65839Y, Vishwanath Tiwari—Inf

SS-40050, IC-65841W, Kulvinder Singh—ASC

// SS-40053, IC-65842Y, Pankaj Kumar—Arty

SS-40055, IC-65844K, Vijay Rao—ASC

SS-40057, IC-65846P, Diler Singh Jakhar—Arty

SS-40059, IC-65847X, Rajeev Yadav—Arty

SS-40061, IC-65849H, Dharam Jot Singh—Inf

SS-40065, IC-65850X, Manpal Singh Dhanoa—Inf

SS-40068, IC-65851A, Abhishek Rai—ASC

SS-40070, IC-65853L, Om Prakash—Inf

SS-40075, IC-65854N, Amardeep Singh—ASC

SS-40077, IC-65855W, Sachin Kaushal—Engrs

SS-40078, IC-65856Y, Kamaljeet Singh Lavana—Arty

SS-40079, IC-65857F, Sartaj Mehta—Arty

SS-40080, IC-65858K, Rahul Sharma—AOC

SS-40081, IC-65859M, Pankaj Jaswal—Engrs

SS-40084, IC-65861K, Gopal Krishna J—EME

SS-40088, IC-65862M, Amit Sharma—Engrs

SS-40089, IC-65863P, Amit Chauhan—Inf

SS-40091, IC-65864X, Sooraj S—Inf

SS-40092, IC-65865A, Abhilash Kochukaleeckel—Arty

SS-40093, IC-65866H, Sushil Lakhanpal—EME

SS-40095, IC-65868N, Amarinder Singh—Inf

SS-40097, IC-65869W, Mandeep Shergill—Inf

SS-40099, IC-65870L, Joginder Shekhawat—ASC

SS-40100, IC-65871N, Arnab Mitra—Inf

SS-40102, IC-65873Y, Jaideep Singh—AC

SS-40105, IC-65875K, Abhilash Varghese—Inf

SS-40106, IC-65876M, Jitendra Chaturvedi—Arty

SS-40107, IC-65877P, Vishal Thapa—Sigs

SS-40109, IC-65879P, Shashikiran Deshpande—Engrs

SS-40114, IC-65881X, Ankur Sagar—EME

SS-40120, IC-65883H, Deepak Chandran M—EME

SS-40128, IC-65886W, Mayur Dhawaj Nathawat—AC

(b) The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows :—

(i) The Date for increments of pay—08 Mar 2003

(ii) The date for promotion—08 Nov 2003

(c) The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted permanent commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 7/S/66 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(a) The undermentioned Short Service Commissioned Officers are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 08 Mar 08, on relinquishing their Short Service Commission wef 08 Mar 2008.

SS No., IC No. allotted, Name and Arms/Services

SS-39978, IC-65793F, Ratan Sain Singh—Sigs

SS-39980, IC-65794K, Neeraj Dadwal—EME

SS-39982, IC-65795M, Ajay Kumar Sharma—Engrs

SS-39985, IC-65796P, Debasish Sinha—EME

SS-39987, IC-65797X, Fajlul Bari Sarshaar—Engrs

(b) The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows :—

(i) The Date for increments of pay—08 May 2001

(ii) The date for promotion—08 May 2001

(c) The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

MLN SRAVAN KUMAR

Col

Col MS 7

ARMY BRANCH

No. 59, dated 11th January 2008.—The President is pleased to make the following commission :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt

Karan Singh Tyagi (TA-42680), Engr—02 Mar 2007 (FN)

Dinesh Gour (TA-42674), Engr—22 Nov 2006 (FN)

Anand Kishore Tiwari (TA-42673), Engr—20 Nov 2006 (FN)

JAI RAJ
Under Secy.

No. 60, dated 10th January 2008.—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and date specified.

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Sub Maj (GD)

Sub Maj Narendra Rai (JC-183172A), Formerly 11 GR—
06 Jan 2007

Sub Maj Jai Parkash (JC-200332N), Formerly Artillery—
07 Jan 2007

Sub Maj Roop Singh Chandel (JC-578118W), Formerly
Jak Rif—08 Jan 2007

In the rank of Sub (GD)

Sub Bishnu Shankar Pandey (JC-842080L), Formerly Navy
—08 Jul 2006

Sub Balbir Singh (JC-528531W), Formerly Garh Rif —
11 Jul 2006

Sub Gajraj Singh (JC-412437N), Formerly Para Regt —
07 Oct 2006

Sub Des Raj (JC-239250F), Formerly Armd Corps —
08 Oct 2006

Sub Shamsher Singh (JC-518582W), Formerly Dogra Regt
—06 Jan 2007

Sub Tarlok Singh (JC-203954A), Formerly Punjab Regt
—06 Jan 2007

Sub Dilbagh Singh (JC-428750H), Formerly Punjab Regt
—06 Jan 2007

Sub Roshan Lal Bharmoria (JC-402227A), Formerly
Brigade of The Guards —06 Jan 2007

Sub Ajit Chand (JC-449019W), Formerly Grenadiers —
06 Jan 2007

Sub Rama Pati (JC-194491M), Formerly Brigade of The
Guards —06 Jan 2007

Sub Mekh Bahadur Thapa (JC-402345N), Formerly
Brigade of The Guards —08 Jan 2007

In the rank of Nb Sub (GD)

Nb Sub Janak Raj (JC-219778X), Formerly Mahar Regt —
07 Oct 2006

Nb Sub Satya Prasad (JC-412435H), Formerly Para Regt
—07 Oct 2006

Nb Sub Bachchan Singh (JC-418355F), Formerly Mech
Inf Regt —08 Oct 2006

Nb Sub Jai Singh Khangarot (JC-239080H), Formerly
Armd Corps —06 Jan 2007

Nb Sub Prakash Chandra (JC-528983Y), Formerly Garh Rif—06 Jan 2007

Nb Sub Ghanshyam Katoch (JC-518877M), Formerly Dogra Regt—06 Jan 2007

Nb Sub Bodh Raj (JC-519223M), Formerly Dogra Regt—06 Jan 2007

PRADEEP KUMAR
Under Secy.

No. 61, dated 11th January 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY MEDICAL CORPS

To be Substantive Sub Maj (Laboratory Technician)

Sub Shiv Kumar (JC-692243A), 01 Jan 2007

Sub Shaba Sona Dey (JC-692517A), 01 Jul 2007

To be substantive Sub Maj (Radiographer)

Sub Krishna Kant Dutta (JC-208716X), 17 Jan 2007

To be Substantive Sub (Laboratory Technician)

Nb Sub Behari Lal (JC-694776F), 01 Nov 2006

Nb Sub Shital Prasad (JC-694874F), 01 Dec 2006

Nb Sub Shambhu Nath Pandey (JC-694875K), 01 Dec 2006

Nb Sub Kamble Suresh Dnyanu (JC-694959X), 01 Dec 2006

Nb Sub Rajendra Singh (JC-694960M), 01 Feb 2007

Nb Sub Ashwani Kumar Shah (JC-695061X), 0 Jun 2007

Nb Sub J Ravi Chandran (JC-695090M), 01 Sep 2007

Nb Sub Acharya Pravin Kumar Jaduram (JC-695132N), 01 Sep 2007

Nb Sub Ashfaq Ahmad (JC-695180N), 01 Sep 2007

Nb Sub Kailash Ram (JC-695168M), 01 Sep 2007

To be Substantive Sub (Laboratory Assistant)

Nb Sub Suresh Chandra Lohani (JC-694974M), 01 Jan 2007

Nb Sub Sarwan Singh (JC-694991M), 01 Feb 2007

Nb Sub Gopal Prasad Gupta (JC-694992P), 01 Feb 2007

Nb Sub R Nalla Retna Moni (JC-695015H), 01 Jun 2007

Nb Sub Madhu Soodana Kurup J (JC-695040F), 01 Jun 2007

Nb Sub Niranjana Kumar Singh (JC-695060P), 01 Jun 2007

Nb Sub Deep Kumar (JC-695067Y), 01 Jun 2007

Nb Sub Dinesh Kumar Sharma (JC-695085F), 01 Jun 2007

Nb Sub Radha Krishna Pillai KS (JC-695127H), 01 Jun 2007

Nb Sub Adiveppa Basa Puri (JC-695086K), 01 Jun 2007

Nb Sub Some Nath Kundu (JC-695087M), 01 Jun 2007

Nb Sub Surendra Singh Rawat (JC-695089X), 01 Jun 2007

Nb Sub O Guna Sekaran (JC-695323H), 01 Sep 2007

To be Substantive Sub (Dental Technician)

Nb Sub Chakala Reddeppa (JC-693013Y), 01 Jan 2007

Nb Sub Krishna Kumar KN (JC-693249N), 01 Jan 2007

Nb Sub Brajesh Kumar Singh Chauhan (JC-693338M), 01 Jul 2007

To be Substantive Sub (Dental Operation Room Assistant)

Nb Sub Ramesh Chandra Dharra (JC-694148H), 01 Nov 2006

Nb Sub Shitole Shashikant Dattatray (JC-694208W), 01 Sep 2007

To be Substantive Sub (Radiographer)

Nb Sub Varghese CM (JC-692968A), 24 Dec 2006

Nb Sub Kamble Pralhad Govind (JC-693034P), 17 Jan 2007

Nb Sub Ram Bilas Mandal (JC-693028F), 01 Mar 2007

Nb Sub Abdul Jabbar (JC-693010L), 01 Mar 2007

Nb Sub Manoharan VR (JC-693154N), 01 Apr 2007

Nb Sub Satpal (JC-693232A), 01 Apr 2007

Nb Sub Shiv Lakhan Singh (JC-693298W), 01 May 2007

Nb Sub Pitambar Sahu (JC-693252N), 01 Jun 2007

Nb Sub Gopal Singh (JC-693299Y), 01 Jun 2007

Nb Sub Surendran KP (JC-693546F), 01 Jun 2007

Nb Sub Shyamal Rao (JC-693547K), 01 Jul 2007

Nb Sub Tara Singh (JC-693548M), 01 Jul 2007

Nb Sub Om Prakash Mehta (JC-693564K), 01 Jul 2007

Nb Sub Puran Chandra Joshi (JC-693651X), 01 Jul 2007

Nb Sub Pritam Singh Negi (JC-693841K), 01 Aug 2007

Nb Sub Mathew MM (JC-693950W), 01 Sep 2007

To be Substantive Sub Maj (Pharmacist)

Sub Balwant Singh (JC-691147Y), 01 Jan 2007

To be Substantive Sub Maj (Dental Hygienist)

Sub Dharam Vir Singh Rathee (JC-692230H), 01 Jul 2007

To be Substantive Sub (Health Assistant)

Nb Sub Prem Singh (JC-691830H), 30 Jul 2007

To be Substantive Sub (Physiotherapy Assistant)

Nb Sub Radhakrishnan K (JC-694139L), 01 Apr 2007

To be Substantive Sub (Pharmacist)

Nb Sub Salak Chand (JC-693005A), 01 Jan 2007

Nb Sub Rajendra Prasad (JC-693127K), 01 Jan 2007

Nb Sub Thangalu Kundu E (JC-693128M), 01 Feb 2007

Nb Sub Surendra Prasad (JC-693037H), 01 Feb 2007

Nb Sub Dal Bahadur Pal (JC-693233H), 01 Feb 2007

Nb Sub Balachandran K (JC-693300H), 01 Feb 2007

Nb Sub Ram Murti (JC-693265L), 01 Apr 2007

Nb Sub Brham Pal Singh (JC-693365W), 01 Apr 2007

Nb Sub Akhilesh Kumar Tripathi (JC-693383Y), 01 Apr 2007

Nb Sub Murugan A (JC-693408A), 01 Apr 2007

Nb Sub Surender Paul (JC-694679K), 01 May 2007

Nb Sub Narayan Patel (JC-693494W), 01 Jun 2007

Nb Sub Samser Ali Khan (JC-693495Y), 01 Jul 2007

Nb Sub Satya Naik (JC-693496P), 01 Jul 2007

Nb Sub Tomy Sebastian (JC-693497K), 01 Jul 2007

Nb Sub Ramesh Chand Meena (JC-693498M), 01 Aug 2007

Nb Sub Jitendra Nath Tiwari (JC-693574N), 01 Sep 2007

To be Substantive Sub (Operation Room Assistant)

Nb Sub Gupta Ramashray Laljee (JC-694412P), 01 Feb 2007

Nb Sub Jai Prakash Singh (JC-694694Y), 01 Mar 2007

Nb Sub Surender Kumar Awasthi (JC-694422Y), 01 Mar 2007

Nb Sub Dheer Singh (JC-694656H), 01 Apr 2007

Nb Sub Radhakrishna Pillai P (JC-694540M), 01 Apr 2007

Nb Sub Arvind Pal Singh (JC-694657L), 01 Jun 2007

Nb Sub Sugriv Singh Jaryal (JC-694658N), 01 Jun 2007

Nb Sub Raj Kumar (JC-694659W), 01 Jun 2007

Nb Sub Madhusoodanan V (JC-694660L), 01 Jul 2007

Nb Sub Dhumi Ram Yadava (JC-694722A), 01 Jul 2007

Nb Sub Ashutosh Roy (JC-694723H), 01 Jul 2007

Nb Sub Mahender Singh (JC-694719A), 01 Aug 2007

Nb Sub Balachandran Nair P (JC-694724L), 01 Aug 2007

Nb Sub Ajit Singh (JC-694804H), 01 Aug 2007

Nb Sub Dharam Vir (JC-694834A), 01 Sep 2007

To be Substantive Sub (Psychiatric Nursing Assistant)

Nb Sub Gorle Da Aradhi (JC-694715K), 01 Apr 2007

Nb Sub Rabi Narayana Acharya (JC-694773N), 01 Aug 2007

To be Substantive Sub (Dental Hygienist)

Nb Sub Jai Bhagwan (JC-694184X), 01 Jul 2007

To be Substantive Sub (Blood Transfusion Assistant)

Nb Sub N Manickam (JC-695034N), 01 Jun 2007

Nb Sub Ravindra Singh Tomar (JC-695041K), 01 Jun 2007

Nb Sub Hira Singh (JC-695039M), 01 Jul 2007

Nb Sub Subhash Chander (JC-695242H), 01 Aug 2007

Nb Sub Kaptan Singh (JC-695136K), 01 Aug 2007

R. C. RATURI

Dy. Secy.

No. 62, dated 11th January 2008.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Ram Prakash (JC-264396A), 11 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Venugopalan KV (JC-265074M), 01 Sep 2006/01 Jun 2006*

Nb Sub Thankachan Joseph (JC-265868X), 24 Jul 2006/01 Jul 2006*

Nb Sub Himat Singh (JC-267233X), 14 May 2007/28 Jun 2006*

Nb Sub Soji Ram Meena (JC-265660P), 01 Jan 2007/01 Nov 2006*

Nb Sub Harjit Singh (JC-265793L), 09 Feb 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Vincent M (JC-265888L), 21 Jun 2007/01 Mar 2007*

Nb Sub Shiv Kumar Chaturvedi (JC-268634Y), 29 Oct 2007/01 Aug 2007*

Nb Sub Suresh Singh (JC-268755A), 01 Oct 2007/01 Aug 2007*

Nb Sub Balkar Singh (JC-268597W), 09 Sep 2007/01 Aug 2007*

Nb Sub Jangli Ram (JC-268729Y), 15 Sep 2007/01 Aug 2007*

Nb Sub Kamal Singh (JC-268917A), 12 Sep 2007/01 Aug 2007*

Nb Sub Madhu Sudan Yadav (JC-268015L), 10 Oct 2007/01 Oct 2007*

Nb Sub Ram Khelawan Sahu (JC-267446L), 09 Oct 2007/01 Sep 2007*

Nb Sub Tilak Raj (JC-267161Y), 03 Oct 2007/01 Sep 2007*

Nb Sub Surjit Singh (JC-267508A), 03 Sep 2007/01 Sep 2007*

Nb Sub Ramesh Baboo Yadav (JC-268608X), 11 Sep 2007/01 Sep 2007*

To be Nb Sub

Hav Ravi Chandran R (No. 14491233W now JC-270704L), 02 Jul 2007/01 Nov 2006*

Hav Ram Karan Gujar (No. 14478842F now JC-270705N), 01 Jan 2007/01 Nov 2006*

Hav Sushil Kumar Srivastava (No. 15106325L now JC-270706W), 24 Apr 2007/01 Dec 2006*

Hav Rajendra Singh Bisht (No. 14373369H now JC-270707Y), 27 Jun 2007/01 Feb 2007*

Hav Rajesh Kumar MC (No. 14398431P now JC-270708F), 29 Apr 2007/01 Mar 2007*

Hav Bimal Kumar Pathak (No. 14482761Y now JC-270709K), 27 Jun 2007/14 Mar 2007*

RHM Rajendra Kumar Tiwari (No. 14499264L now JC-270710Y), 25 Jun 2007/01 May 2007*

Hav Parmjeet Singh (No. 14371435F now JC-270711F), 17 May 2007/01 May 2007*

Hav Sushil Kumar Jha (No. 14480603L now JC-270712K), 07 Jun 2007/01 May 2007*

Hav Ram Pal Singh (No. 14397413A now JC-270713M), 01 Jul 2007/07 May 2007*

Hav Devi Prasad Gupta (No. 15105408K now JC-270714P), 06 Aug 2007/07 May 2007*

Hav Kailash Yadava (No. 14487842H now JC-270715X), 02 Jul 2007/27 May 2007*

Hav Kheem Singh (No. 14489057L now JC-270716A), 01 Jun 2007

Hav Surendra Singh Negi (No. 14486925F now JC-270717H), 09 Jul 2007/03 Jun 2007*

Hav Kushal Singh (No. 14384002H now JC-270718L), 31 Jul 2007/03 Jun 2007*

Hav Rajesh Kumar Yadav (No. 15118843X now JC-270719N), 06 Aug 2007/11 Jul 2007*

Hav V Bharathi (No. 14481682Y now JC-270734H), 02 Mar 2007/25 Nov 2006*

Hav Bhupal Singh (No. 14484685W now JC-270735L), 03 May 2007/01 Mar 2007*

RHM Satendra Prasad Singh (No. 14370781L now JC-270736N), 21 May 2007/07 Apr 2007*

Hav Har Swaroop Singh (No. 14495096A now JC-270737W), 02 Jul 2007/01 May 2007*

Hav Kailas Namdeorao Sarnoik (No. 14484605N now JC-270738Y), 24 Jul 2007/01 May 2007*

Hav Anandan M (No. 14497085M now JC-270739F), 24 Jul 2007/01 May 2007*

RHM Khema Ram Ghasswan (No. 14375461A now JC-270740W), 23 Jul 2007/01 Jun 2007*

Hav Vijay Kumar MK (No. 14487126X now JC-270741Y), 01 Jun 2007

Hav Kulwant Singh (No. 3383666W now JC-270742F), 28 Jul 2007/21 Jun 2007*

Hav Kulwant Singh (No. 14494478K now JC-270743K), 02 Jul 2007/01 Jul 2007*

Hav Subrata Kumar Biswas (No. 14372819H now JC-270744M), 01 Aug 2007

RHM Ram Nath Yadava (No. 14376022F now JC-270745P), 10 Aug 2007/01 Aug 2007*

Hav Gopal Dass (No. 14495899M now JC-270746X), 14 Aug 2007/01 Aug 2007*

Hav Ram Manohar Sahu (No. 15103219F now JC-270747A), 01 Aug 2007

BHM Gian Chand (No. 14477900N now JC-270748H), 13 Aug 2007/01 Aug 2007*

*(Gtd Seniority wef)

RAMA SASTRY
Under Secy.

No. 63, dated 15th January 2008.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

Gurtej Singh (MR-08473N) (MS-14493X), AMC—19 Dec 2006

Arjun MN (MR-08300W) (MS-14621K), AMC—07 Apr 2007

Avinash Surana (MR-08386A) (MS-14652K), AMC—28 May 2007

Trilok Singh Rawat (MR-08240M) (MS-14369W), AMC—08 Mar 2006

Atul Sharma (MR-08402M) (MS-14592A), AMC—22 Mar 2007

Mayuri Jain (MR-08485H) (MS-14822H), AMC—17 Aug 2007

Hari Baskar S (MR-08401K), AMC—19 Dec 2006

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

K. Jinjil (MR-06506P) (75544R), AMC—16 Dec 2004

Amiya Chandra Rath (MR-07460K) (75594B), AMC—03 Dec 2005

Diviya Gautam (MR-07657A) (75610R), AMC—05 Mar 2006

S S G Narayana (MR-06418Y) (75533), AMC—16 Dec 2004

C V S Nagendra Rao (MR-07057X) (75547), AMC—16 Dec 2004

P K Srivastava (MR-07792N) (75606), AMC—04 Jan 2005

Sqn Ldr to be Wg Cdr

(Smt.) Parneet Kaur (MR-07389F) (AF-23448K), AMC—05 Sep 2006

S Mitra (MR-06818L) (AF-23435N), AMC—03 Jul 2007

(Mrs) Bharthi Ganti Mahapatra (MR-07375F) (AF-23479), AMC—27 Sep 2007

Ahmed Hussain Zaidi (MR-07602W) (AF-23483N), AMC—01 Oct 2007

G. RAVINDRANATH

Brig

Dy. DGAFMS (Pers)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 64, dated 14th January 2008.—The President is pleased to promote the following officers from existing grade w.e.f. 01 Sep 2007 (FN) as mentioned against each :—

Name	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Scale of Promoted Grade
Shri/Smt.				
T S Puri	ADRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
Pramod Kumar	ADRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
J P Virmani	ADRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
S C Sanger	ADRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
Bridhi Chand	DARL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
V K Joshi	DARL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
B M Fazlunissa	MTRDC	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
M R Kumaraswamy	DFRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
S Nataraju	DFRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
Satish Kumar Gupta	DESIDOC	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
V L Kakkar	DESIDOC	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
Charan Singh	DESIDOC	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
V Nirmala	DEBEL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-

B B SHARMA

Jt. Dir. (Pers-I)

Army Branch

No. 65, dated 15th January 2008.—The president is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts wef 11 Jun 2005)

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 14 Jan 2006 under the heading "Permanent Commission" in the Regular Army is here by amended as under :—

For — IC-66912Y Paramjot Singh Kant—AC

Read — IC-66912Y Paramjot Singh Kang—AC

For — IC-66988Y Rampareet Singh Vasan—INT

Read — IC-66988Y Rampreet Singh Vasan—INT

For — IC-66998H Siddharath Rawat—INF

Read — IC-66998H Siddharth Rawat—INF

For — IC-67048A Gaurav S Yewalkar—INF

Read — IC-67048A Gaurav S Yewalkar—INF

For — IC-67049H Siddharath Rawat—AAD

Read — IC-67049H Siddharth Rawat—AAD

For — IC-67083H Santanu Dhar—ARTY

Read — IC-67083H Shantanu Dhar—ARTY

For — IC-67210M Pratul Davin Singh—ARTY

Read — IC-67210M Pratul David Singh—ARTY

(To be Lts wef 11 Jun 2005)

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 12 May 2007 under the heading "Permanent Commission" in the Regular Army is here by amended as under :—

For — IC-68156W Puneet Karia—ARTY

Read — IC-68156W Puneet Kataria—ARTY

CHANDER SHEKHAR

Lt Col

AMS 8-B